



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## हत्याकांड का खुलासा, शूटर सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

दिनांक 13.11.2020 को थाना अटरिया क्षेत्र में कांशीराम विश्वकर्मा पुत्र पुत्तिलाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम उनई थाना अटरिया सीतापुर की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना अटरिया पर मु0अ0सं0 333/20 धारा 302/34 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तीन टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 25.11.2020 को थाना अटरिया पुलिस तथा स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तगण 1.शिवम सिंह पुत्र अनार सिंह निवासी रेखपुर थाना कासगांज जनपद कासगांज तथा 2.लोकेन्द्र सिंह उर्फ नेहना पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम बांधनू थाना शासनी जनपद हाथरस को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से दो अवैध तमन्चा व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई है। शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 353/20 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**घटनाक्रम:-**दिनांक 13.11.2020 की शाम को करीब 07.30 बजे कांशीराम विश्वकर्मा पुत्र पुत्तिलाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम उनई थाना अटरिया जनपद सीतापुर को उनके घर से बुलाकर गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना अटरिया पर दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या की घटना की जांच से पता चला कि मृतक कांशीराम उपरोक्त के पास के ही एक अन्य गांव की महिला से सम्बन्ध थे जिसका उसका दामाद शिवम सिंह पुत्र अनार सिंह निवासी रेखपुर थाना कासगांज जनपद कासगांज काफी क्षुब्ध था। शिवम उपरोक्त जनपद नोएडा में एक निजी कम्पनी में नौकरी करता है। शिवम की लोकेन्द्र सिंह उर्फ नेहना पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम बांधनू थाना शासनी जनपद हाथरस जो नोएडा में ही ऑटोरिक्षा चलाता था, से मित्रता थी। लोकेन्द्र एक अभ्यस्त अपराधी तथा भाड़े का हत्यारा भी है। जिसके विरुद्ध हत्या सहित कुल 07 अभियोग जनपद अलीगढ़ व हाथरस में पंजीकृत है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई तथा 13.11.2020 को शिवम तथा लोकेन्द्र नोएडा से एक मोटर साइकिल द्वारा थाना क्षेत्र अटरिया स्थित ग्राम उनई आए तथा कांशीराम विश्वकर्मा उपरोक्त की गोली मारकर हत्या कर दी। अभियुक्तगण के कब्जे से दो अवैध तमन्चा व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की गयी है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता:-

1. शिवम सिंह पुत्र अनार सिंह निवासी रेखपुर थाना कासगांज जनपद कासगांज।
2. लोकेन्द्र सिंह उर्फ नेहना पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम बांधनू थाना शासनी जनपद हाथरस।

## बरामदगी:-

- दो अवैध तमन्चा व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

## अभियुक्त लोकेन्द्र सिंह उर्फ नेहना पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम बांधनू थाना शासनी जनपद हाथरस का आपराधिक इतिहास

क्र० सं०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	340/2000	302/201 IPC	शासनी	हाथरस
2	10/2002	3(1) UP गुण्डा नियन्त्रण अधि०	शासनी	हाथरस
3	107/07	110 G CRPC	शासनी	हाथरस
4	0794/14	302 IPC	सादाबाद कोतवाली	हाथरस
5	0867/14	25 A. ACT	सादाबाद कोतवाली	हाथरस
6	333/20	302/34 IPC	अटरिया	सीतापुर
7	353/20	25 (1-B) A. ACT	अटरिया	सीतापुर

## अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र अनार सिंह निवासी ग्राम रेखपुर थाना कासगंज जनपद कासगंज अपराधिक इतिहास –

क्र० सं०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	333/20	302/34 IPC	अटरिया	सीतापुर
3	354/20	25 (1-B) A. ACT	अटरिया	सीतापुर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह मय अटरिया पुलिस टीम  
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह मय स्वाट व सर्विलांस टीम